

ICI Pru Prudential Asset Management Company Limited
Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness sessions across the country. Schedule for upcoming "Chat Show" webinar is as below:

Date	Timings	For Registration
20 th January, 2022	3.40 pm - 4.40 pm	https://bit.ly/iPruMFSmartInvestor

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

1AP No. 002/21/0022



Assam Cancer Care Foundation

3rd Floor, V.K. Trade Centre G, 5 Road Opposite Downtown Hospital, Guwahati-781022, Assam. Ph: +91-90852 02020
E: procurement@accf.in | W: www.assamcancercarefoundation.org

Short Tender Notice (e-Tender) 19-01-2022

1. RE-TENDER FOR SURGICAL INSTRUMENTS & FURNITURES
2. RE-TENDER FOR MEDICAL EQUIPMENT
3. RFP / TENDER FOR INSURANCE OF EQUIPMENT / MEDICAL FURNITURE

Details of Bid schedules etc. are mentioned in the respective bid documents. The bid documents uploaded in the following e-portals
<https://assamtenders.gov.in> and www.assamcancercarefoundation.org
Interested and eligible OEMs, Manufacturers, Suppliers may download and submit their bids online at <https://assamtenders.gov.in>

Head Procurement, ACCF



Welspun Investments and Commercials Limited
Corporate Identification Number L52100GJ2008PLC055195

Regd. Office: Welspun City, Village Versamedi, Taluka Anjar, Dist. Kutch, Gujarat 370110, India.
Tel. No. +91 2836 661111, Fax No. +91 2836 279010
Email : CompanySecretary_WINL@welspun.com; Website: www.welspuninvestments.com
Corporate Office : Welspun House, 7th Floor, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai – 400013. Tel. No. +91 22 66136000, Fax No. +91 22 2490 8020

NOTICE OF BOARD MEETING

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, January 27, 2022, *inter alia*, to consider and approve the Unaudited Financial Statements of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2021.

For Welspun Investments and Commercials Limited
Sd/-
Amol Nandedkar
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : January 18, 2022

FORM G INVITATION OF RESOLUTION PLANS (Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)	
RELEVANT PARTICULARS	
1 Name of the Corporate Debtor	Emkay Automobile Industries Limited
2 Date of incorporation of corporate debtor	04/09/2000
3 Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, New Delhi
4 Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U34300DL2000PLC107525
5 Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	W-10/14, Western Avenue, Sainik Farms New Delhi -110062.
6 Insolvency commencement date of the corporate debtor	12.10.2021
7 Date of invitation of expression of interest	19.01.2022
8 Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	https://insolvencyandbankruptcy.in/cirp/emkay-automobile-industries-limited/
9 Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	https://insolvencyandbankruptcy.in/cirp/emkay-automobile-industries-limited/
10 Last date for receipt of expression of interest	03.02.2022
11 Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	13.02.2022
12 Last date for submission of objections to provisional list	18.02.2022
13 Date of issue of final list of prospective resolution applicants	28.02.2022
14 Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	18.02.2022
15 Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	Request e-mail to be sent on emkay@aaainsolvency.com and VDR access shall be provided
16 Last date for submission of resolution plans	18.03.2022
17 Manner of submitting resolution plans to resolution professional	Password protected file to be sent on emkay@aaainsolvency.com and sealed hard copy at the address mentioned in column No. 21
18 Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	30.03.2022
19 Name and registration number of the resolution professional	Name:- Mr. Hemant Sethi, Reg No.:- IBB/I/PA-002/IP-N01107/2021-2022/13628
20 Name, Address and e-mail of the resolution professional, as registered with the Board	Name:- Mr. Hemant Sethi, Address:- Block No. IB, House No. 8-C, Ashok Vihar, Phase-1, Opp. Sports Complex, North West, NCT of Delhi, 110052 e-mail:- hemantsethi60@gmail.com
21 Address and email to be used for correspondence with the Resolution Professional	Address:- E- 10A, Kailash Colony, New Delhi, Delhi 110048. Email:- emkay@aaainsolvency.com
22 Further Details are available at or with	https://insolvencyandbankruptcy.in/cirp/emkay-automobile-industries-limited/
23 Date of publication of Form G	19.01.2022

Hemant Sethi
Resolution Professional
IBBI/PA-002/IP-N01107/2021-2022/13628
10A, Kailash Colony, New Delhi, Delhi 110048
For Emkay Automobile Industries Limited

Date: 19.01.2022
Place: New Delhi



LCC INFOTECH LIMITED
CIN:L72200WB1965PLC073196
Regd Office: P-16, C.I. T.Road, Kolkata-700014
Corporate office: 25A Sarat Bose Road, Kolkata-20
Email: corporate@lccinfotech.co.in
Ph:033-40033636/37 • Fax: 033024852932
Website: www.lccinfotech.in

Pursuant to regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Director of the company is scheduled to be held on Friday 28th January 2022 at 2 PM at corporate office of the company at 25A Sarat Bose Road, Kolkata-700020 West Bengal, to consider and approve inter alia the Unaudited Financial Result for the Qtr ended on 31.12.2021.

In view of above the trading window for dealing in the securities of the company has been closed for the specified persons from 1st January 2022 till 48 Hrs from announcement of unaudited financial result. The information contained in the notice is also available on the website of the company and also on the website of the exchange.

For LCC Infotech Limited
Sd/-
Siddharth Lakhotia
Director

Date: 17.01.2022
Place: Kolkata



हिन्दुस्तान फ्लुओरोकार्बन्स लिमिटेड
HINDUSTAN FLUOROCARBONS LIMITED
(CIN NO. L25206GT1983PLC004037)
Registered Office: 301, Sakinaka Estate, Sakinaka, Hyderabad 500 061


NOTICE

Notice is hereby given in pursuance to Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 210th Meeting of Board of Directors of the Company (HFL) is scheduled to be held on Monday 24th January, 2022 Video Conferencing (VC) to consider and to approve inter alia, the Un-Audited Financial Results of the Company for the 3rd quarter/nine months ended 31st December, 2021 and other allied important/urgent agenda items.

The Notice of the Board Meeting will also be available on the Company's website www.hfl.co.in, website of the Stock Exchange i.e. BSE at www.bseindia.com

Sd/-
(M V Nagalakshmi)
Designated Filing Officer
Hindustan Fluorocarbons Limited

Place: Hyderabad
Dt: 18-01-2022



INFRADEBT
INDIA INFRADEBT LIMITED
CIN: U65923MH2012PLC237365
Registered Office: The Capital, "B" Wing, 1101A, Bandra-Kurla Complex, Mumbai – 400 051
Tel: +91 22 68196900 Fax: +91 22 68196910 E-mail: info@infra debt.in

Financial results for the quarter ended December 31, 2021

Sr. No.		Quarter ending December 31,		Year ended March 31
		2021	2020	
		(Reviewed)		(Audited)
1	Total Income from Operations	3,676.27	3,328.07	13,061.82
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	778.12	711.16	2,764.43
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	778.12	711.16	2,764.43
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	778.12	711.16	2,764.43
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	784.61	705.12	2,757.20
6	Paid up Equity Share Capital	8,678.71	8,678.71	8,678.71
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	14,407.19	11,634.86	12,313.38
8	Securities Premium Account	3,717.03	3,717.03	3,717.03
9	Net worth	23,085.90	20,313.57	20,992.09
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	1,39,534.26	1,25,612.95	1,23,959.71
11	Debt Equity Ratio	6.04	6.18	5.91
12	Earnings Per Share (Face value of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-Basic and Diluted:	0.90*	0.82*	3.19


* Not annualised

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015 (LODR Regulations). The full format of the quarterly financial results are available on www.bseindia.com and www.infra debt.in.
- The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board at its Meeting held on January 18, 2022. The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the aforesaid results.
- As per section 10(47) of Income Tax Act, 1961, income of the Company does not form part of total taxable income and hence is exempt from income tax.
- For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed on www.bseindia.com.
- Previous year/period figures have been regrouped/ rearranged wherever necessary to conform to the current period figures.

For and on behalf of the Board of Directors,
India InfraDebt Limited
Sd/-
Suvek Nambiar
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: January 18, 2022



Edelweiss | MUTUAL FUND

Edelweiss House, Off C.S.T Road, Kalina, Mumbai - 400 098

NOTICE

RECORD DATE FOR DISTRIBUTION UNDER INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL OPTION (IDCW OPTION)

NOTICE is hereby given that Edelweiss Trusteeship Company Limited, Trustee to Edelweiss Mutual Fund, has approved declaration of IDCW Options under the following Schemes of Edelweiss Mutual Fund, as per the details given below:

Name of the Scheme/Plan/Option	Amount of IDCW	Record Date	NAV per unit as on January 17, 2022	Face Value per unit
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - IDCW Option	₹ 0.15 per unit*	Monday, January 24, 2022**	₹ 23.38	₹ 10.00
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - IDCW Option	₹ 0.15 per unit*		₹ 25.87	
Edelweiss Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Monthly IDCW Option	₹ 0.12 per unit*		₹ 21.82	
Edelweiss Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Monthly IDCW Option	₹ 0.12 per unit*		₹ 24.53	
Edelweiss Equity Savings Fund - Regular Plan - Monthly IDCW Option	₹ 0.08 per unit*		₹ 13.6809	
Edelweiss Equity Savings Fund - Direct Plan - Monthly IDCW Option	₹ 0.08 per unit*		₹ 14.5592	
Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Regular Plan IDCW Option	₹ 0.30 per unit*		₹ 18.3687	
Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan IDCW Option	₹ 0.30 per unit*		₹ 18.859	

Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the aforementioned IDCW Options of the Schemes will fall to the extent of payout and statutory levy, if any.

*Distribution of the above IDCW is subject to availability of distributable surplus as on the Record Date and as reduced by the amount of applicable statutory levy, if any. Considering the volatile nature of the markets, the Trustee reserves the right to restrict the quantum of IDCW upto the per unit distributable surplus available under the Schemes on the Record Date in case of fall in the market.

**or the immediately following Business Day if that day is a Non-Business Day.

All Unit holders whose name appears in the Register of Unit holders of the aforementioned IDCW Options of the Schemes as at the close of business hours on the Record Date shall be eligible to receive the IDCW so declared.


Investors are requested to take note of the above.

For Edelweiss Asset Management Limited
(Investment Manager to Edelweiss Mutual Fund)
Sd/-
Radhika Gupta
Managing Director & CEO
(DIN: 02657595)

Place : Mumbai
Date : January 18, 2022

For more information please contact:
Edelweiss Asset Management Limited (Investment Manager to Edelweiss Mutual Fund)
CIN: U65991MH2007PLC173409
Registered & Corporate Office: Edelweiss House, Off C.S.T Road, Kalina, Mumbai - 400098; **Tel No:- 022 4093 3400 / 4097 9821**
Toll Free No. 1800 425 0090 (MTNL/BSNL), Non Toll Free No. 91 40 23001181, Fax: 022 4093 3401 / 4093 3402 / 4093 3403
Website: www.edelweissmf.com

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.



E2E NETWORKS LIMITED
CIN: L72900DL2009PLC341980

Regd. Office: Awfis, First Floor, A-24/9, Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, Saidabad, New Delhi-110044, Phone +91-11-39235393,
Email: investors@e2enetworks.com, Website: <https://www.e2enetworks.com/>

POSTAL BALLOT NOTICE AND INFORMATION ON E-VOTING

The members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 and other applicable Regulations of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), including any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, Secretarial Standard – II issued by the Institute of Company Secretaries of India on General Meetings and in accordance with the relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities & Exchange Board of India, the Postal Ballot Notice seeking consent of members through voting by electronic mode (i.e. Remote e-Voting), has been sent by email to the members whose names appear in the Register of Members as on the Cut-Off Date i.e. Friday, January 14, 2022 for obtaining the approval of the Shareholders by way of Special Resolution(s) on the following matters:

- Migration of Listing/ Trading of Equity Shares of the company from NSE SME platform i.e. (EMERGE) to main Board of NSE (Capital Segment).

The detailed instructions and information relating to Remote e-Voting are set out in the Postal Ballot Notice sent to the Shareholders. The Company has completed dispatch of Notice of Postal Ballot on Tuesday, January 18, 2022.

The facility to exercise vote on the Postal Ballot by Remote e-Voting, will be available for the following period:

Commencement of Remote e-Voting	Wednesday, January 19, 2022 (9.00 A.M. IST)
End of Remote e-Voting	Thursday, February 17, 2022 (5.00 P.M. IST)

Remote e-Voting shall not be allowed after 5.00 P.M. IST on Thursday, February 17, 2022 and e-Voting module shall be disabled thereafter.

The Company has entered into an arrangement with Link Intime India Private Limited ("Link Intime") for facilitating Remote e-Voting to enable the shareholders to cast their votes electronically pursuant to Regulation 44 of Listing Regulations.

In accordance with the requirements of the relevant MCA Circulars, the hard copy of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business reply envelope has not been sent to the shareholders for this Postal Ballot and shareholders are required to communicate their assent or dissent through the Remote e-Voting System only. The Postal Ballot Notice is placed on the website of the Company i.e. <https://www.e2enetworks.com/> and also on the website of Link Intime i.e. <https://instavote.linkintime.co.in>


The Company has appointed Mr. Mohit Maheshwari (Membership No. F9565 & Certificate of Practice No. 19946), Partner, M/s. MAKS & Co., Company Secretaries (FRN: P2018UP067700) as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot / E-voting process in a fair and transparent manner. The result of postal ballot through remote e-voting shall be submitted within 48 hours from the conclusion of the e-voting process to the stock exchange and same will be posted on the Company's website at <https://www.e2enetworks.com/> and also on the website of Link Intime i.e. <https://instavote.linkintime.co.in>

The voting rights of the equity shareholders shall be reckoned on the equity shares held by them as on Friday, January 14, 2022 being the Cut-Off Date. Further, the total voting capital of the Company for determining the voting rights of members as on Cut-off Date will be 1,44,75,126 Equity Shares of Rs. 10/- each. A person who is not a member on Cut-Off Date should treat this notice for information purpose only.

In light of the MCA Circulars, shareholders who have not registered their email address and in consequence could not receive the Remote e-Voting module may temporarily get their email registered with the Company by sending an e-mail to investors@e2enetworks.com. Thereafter, the Company would endeavor to send the Postal Ballot Notice to such Members to enable them to cast their vote through e-voting. Members as on Cut Off date i.e. January 14, 2022, who have not received postal ballot notice, user id and password for remote e-voting may apply to the Company by emailing at investors@e2enetworks.com and obtain a duplicate thereof by providing information asked by the Company.

In case of any query/grievances connected with the voting by Postal Ballot including e-voting shareholders may refer **Frequently Asked Questions ('FAQs') and InstaVote e-Voting manual** available at <https://instavote.linkintime.co.in> under Help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or investors@e2enetworks.com or contact on:- Tel: 022 – 4918 6000.

For E2E Networks Limited
Sd/-
Neha Bald
Date: January 18, 2022
Place : Delhi
Company Secretary Cum Compliance Officer



McLEOD RUSSEL
Believe in less

McLEOD RUSSEL INDIA LIMITED
Corporate Identity Number (CIN) : L5109WB1998PLC087076
Regd. Office: Four Mangoe Lane, Surendra Mohan Ghosh Sarani, Kolkata-700 001
Telephone : 033-2210-1221, 2248-9434/35, Fax : 91-33-2248-8114/6265/3683
E-mail: administrator@mcleodrussel.com, Website: www.mcleodrussel.com

PRESS RELEASE / PUBLIC NOTICE

UNDER SECTION 9 OF THE INCOME TAX ACT 1961 READ WITH RULE 11 UE (2) (I) OF THE INCOME TAX RULES 1962


This is to inform any and all concerned that:

- An order had been passed against McLeod Russel India Limited ("Company") by the Assistant Director of Income Tax (International Taxation) – 2 (1), Kolkata dated 15 May 2009 with respect to assessment year 2006 – 2007, under Section 201 (1) read with Section 201 (1A) of the Income Tax Act 1961 ("IT Act") pursuant to which a demand of INR 52,78,51,942 (Indian Rupees Fifty Two Crores Seventy Eight Lakhs Fifty One Thousand Nine Hundred and Forty Two) was raised upon the Company.
- With respect to the aforesaid, the Company had filed an appeal under Section 246A of the IT Act before the Commissioner of Income Tax (Appeals) – VI, Kolkata in Form 35 on 12 June 2009 against the order dated 15 May 2009. The appeal, originally bearing appeal number 15 / 09 – 10 / CIT (A) – VI / DDIT (IT) – 2 (1) / KOL has since been renumbered as appeal number 26 / CIT (A) – 22 / KOL / 14 – 15 or CIT (A), Kolkata – 22/10078/2009 – 10.
- The Company had also filed a writ petition before the Hon'ble Calcutta High Court, bearing WPO No 441 of 2012 with respect to the retrospective amendments that were made to the provisions of the IT Act, which was connected to the order dated 15 May 2009 referred to hereinabove.
- Pursuant to the amendments made to Section 9 of the IT Act and Section 119 of the Finance Act 2012 under the Taxation Laws (Amendment) Act 2021 and the notification of the Income – tax (31st Amendment) Rules 2021, the aforesaid proceedings have been withdrawn after appropriate steps were taken before the Commissioner of Income Tax (International Taxation and Transfer Pricing), Kolkata.

It is hereby declared by the Company that after the signing of the undertaking in Form No 1 under Appendix IV of the Income Tax Rules 1962, any claims arising out of or relating to the aforesaid order dated 15 May 2009 or any related award, judgment or court order, no longer subsist, and that Mr PradipBhar, Chief Financial Officer of the Company has signed the undertaking on behalf of the Company, and that such undertaking includes an indemnity against any claims brought against the Republic of India or any Indian affiliate (as defined in the IT Rules) contrary to the undertaking, and that the Company shall furnish a copy of this press release to the Republic of India. The Company further confirms that:

- The Company forever irrevocably forgo any reliance on any right and provisions under any award, judgment, or court order pertaining to the order dated 15 May 2009 or under the order dated 15 May 2009;
- The Company has provided the undertaking, which includes a complete release of the Republic of India and any Indian affiliates with respect to any award, judgment, or court order pertaining to the order dated 15 May 2009 or under the order dated 15 May 2009, and with respect to any claim pertaining to order dated 15 May 2009;
- The undertaking also includes an indemnity against any claims brought against the Republic of India, contrary to the release; and
- The Company confirms it will treat any such award, judgment, or court order as null and void and without legal effect to the same extent as if it had been set aside by a competent court and will not take any action or initiate any proceeding or bring any claim based on that.

Place : Kolkata
Date : 18.01.2022



HFCL LIMITED

Regd. Office : 8, Electronics Complex, Chambaghat, Solan-173213 (Himachal Pradesh). Tel. : (+911792) 230644 Fax No. : (+911792) 231902
E-mail: secretarial@hfcl.com Website: www.hfcl.com / Corporate Identity Number (CIN): L64200HP1987PLC007466

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE THIRD QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2021

Particulars	Standalone						Consolidated					
	Three months ended	Preceding three months ended	Corresponding three months ended in the previous year	Year to date figures for the current period ended	Year to date figures for the previous period ended	Previous Financial Year ended	Three months ended	Preceding three months ended	Corresponding three months ended in the previous year	Year to date figures for the current period ended	Year to date figures for the previous period ended	Previous Financial Year ended
	December 31, 2021	September 30, 2021	December 31, 2020	December 31, 2021	December 31, 2020	March 31, 2021	December 31, 2021	September 30, 2021	December 31, 2020	December 31, 2021	December 31, 2020	March 31, 2021
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income from operations	1,107.36	1,004.92	1,188.89	3,220.48	2,828.93	4,105.87	1,215.21	1,122.05	1,277.48	3,544.13	3,031.56	4,422.96
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	94.79	93.83	98.03	298.67	190.75	300.00	115.85	115.24	114.70	355.14	222.75	340.99
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	94.79	93.83	97.29	298.67	186.62	295.87	109.47	115.24	113.96	348.76	218.62	336.86
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	70.12	70.18	75.04	220.84	140.36	222.86	81.10	85.94	85.11	257.73	159.77	246.24
Total comprehensive income for the period (comprising net profit (after tax) and other Comprehensive Income (after tax) for the period)	71.33	70.90	75.99	222.14	143.40	227.54	82.24	86.55	86.09	258.92	163.06	251.20
Paid up Equity Share Capital	137.43	128.65	128.44	137.43	128.44	128.44	137.43	128.65	128.44	137.43	128.44	128.44
Other Equity	-	-	-	-	-	1,748.05	-	-	-	-	-	1,795.03
Earnings Per Share (Face Value Re. 1/- each) (for continuing and discontinuing operations) -												
Basic (Rs.)	0.53	0.54	0.58	1.71	1.09	1.74	0.59	0.64	0.64	1.91	1.20	1.86
Diluted (Rs.)	0.54	0.55	0.58	1.71	1.10	1.74	0.60	0.64	0.64	1.92	1.21	1.87

NOTES:

- The above Un-Audited Standalone & Consolidated Financial Results of the Company for the third quarter and nine months ended 31st December, 2021 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 17th January, 2022.
- The above Results are in compliance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time.
- The above is an extract of the detail format of Un-audited Standalone & Consolidated Financial Results of the Company for the third quarter and nine months ended 31st December, 2021 filed with stock exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-audited standalone & consolidated financial results of the Company for the third quarter and nine months ended 31st December, 2021 are available on the Company's website i.e. www.hfcl.com and stock exchanges website at BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com).
- The figures of the previous periods have been re-grouped/ re-arranged wherever considered necessary.

Place : New Delhi
Date : 17th January, 2022

By order of the Board
(Mahendra Nahata)
Managing Director
DIN 00052898

धनशोधन मामले में अनिल देशमुख की जमानत अर्जी खारिज

मुंबई, 18 जनवरी (भाषा)।

एक विशेष अदालत ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें कथित धन शोधन मामले में तकनीकी आधार पर जमानत देने का अनुरोध किया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता देशमुख को दो नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं। देशमुख ने अपनी अर्जी में दलील दी थी कि धन शोधन निवारण कानून के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने उन्हें आगे की न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले ईडी द्वारा दाखिल आरोप-पत्र का संचान नहीं लिया। अर्जी में कहा गया था कि चूंकि गिरफ्तारी से 60 दिन की निर्धारित अवधि में आरोप-पत्र का संचान नहीं लिया

सिक्किम ने अन्य राज्यों से आने वाले दूध पर लगाई पाबंदी

गंगटोक, 18 जनवरी (भाषा)।

सिक्किम सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले सभी पैकेटबंद और डिब्बाबंद दूध के गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए राज्य में उन पर अवस्थायी पाबंदी लगा दी है। पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सिक्किम के बाहर से पैकेटबंद/डिब्बाबंद दूध की खरीद-बिक्री पर बुधवार से पाबंदी लगाई गई है।

अधिसूचना के अनुसार, सरकार के संचान में आया है कि दूसरे राज्यों से आया ताजा,प्रसंस्कृत और अप्रसंस्कृत पैकेटबंद/डिब्बाबंद दूध सिक्किम में बेचा जा रहा है।

कोल्हापुर : अपहरण, हत्या की दोषी बहनों की फांसी उम्रकैद में बदली

मुंबई, 18 जनवरी (भाषा)।

बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कोल्हापुर की उन दो बहनों (रेणुका शिंदे और सीमा गावित) की मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया, जिन्हें 1990 से 1996 के बीच 14 बच्चों का अपहरण करने और इन्में से पांच की हत्या करने के अपराध में कोल्हापुर की एक

चाचा-चाची की हत्या के आरोप में युवक गिरफ्तार

जबलपुर, 18 जनवरी (भाषा)।

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में 27 वर्षीय व्यक्ति को अपने ही चाचा और चाची की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को शक था कि दंपति ने उस पर कथित काला जादू किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जिले के चौराई गांव के पास एक झोपड़ी में कुछ दिन पहले वृद्ध दंपति के शव के जले हुए अवशेष पुलिस को मिले थे।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) शिवेंद्र सिंह ने मंगलवार को बताया कि आरोपी दयाराम कुलस्ते को सोमवार को बरेला थाना क्षेत्र के हिनोलिया गांव से गिरफ्तार किया गया है, जो कि मृतक सुमेर सिंह कुलस्ते (60) और उसकी पत्नी सिया बाई (55) का भतीजा है। उन्होंने कहा कि घटना नौ व दस जनवरी की मध्य रात चौराई गांव के पास हुई थी। अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने सुमेर सिंह और उसकी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी और बाद में उनकी झोपड़ी में आग लगा दी।

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जांच में पता चला है कि आरोपी को शक था कि मृतक दंपति द्वारा उस पर काला जादू किया जा रहा है, जिसके कारण आरोपी के भाई ने पूर्व में आत्महत्या की थी।

इसके साथ ही एएसपी ने कहा कि दयाराम ने सुमेर सिंह पर अपने पिता की जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया, इसलिए भी आरोपी उससे नाराज था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जांच के अनुसार दयाराम नौ जनवरी की रात को चौराई गांव में मौजूद था और घटना के बाद वह वहां से फरार हो गया। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।

धारा 167 के अनुसार अगर 60 दिनों के भीतर आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया जाता है और इसका संचान नहीं लिया जाता है तो आरोपी तकनीकी आधार पर जमानत का अनुरोध कर सकता है। हालांकि, केंद्रीय एजेंसी ने दलील दी कि आरोप-पत्र पर अदालत के संचान लेने का सवाल ही प्रासंगिक नहीं है। साथ ही कहा कि समय पर मूल आरोप-पत्र और पूरक जमानत दाखिल होने के बाद ‘डिफाल्ट’ जमानत पर विचार नहीं किया जा सकता है।

गया, इसलिए उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167 के तहत तकनीकी आधार पर जमानत मिलनी चाहिए। ईडी ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोप-पत्र निर्धारित समय के भीतर दाखिल किया गया था। विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने राकांपा नेता की याचिका खारिज कर दी।

धारा 167 के अनुसार अगर 60 दिनों के भीतर आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया जाता है

सूचना उपलब्ध कराने में ढिलाई को लेकर तीन अधिकारियों पर जुर्माना

जयपुर, 18 जनवरी (भाषा)।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी उपलब्ध कराने में ढिलाई बरतने पर अलग-अलग मामलों में तीन अधिकारियों पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इनमें दो अधिकारी चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से हैं, जबकि एक विकास अधिकारी हैं।

आयोग ने निर्देश दिया है कि जुर्माने की यह राशि उनके वेतन से वसूल की जाए। साथ ही आदेश की प्रति इन अधिकारियों के विभाग को भेजने की भी हिदायत दी गई है।

शिकायतकर्ता की सूचना पर कोई कार्रवाई नहीं करने पर चित्तौड़गढ़ के मुख्य चिकित्सा और

और इसका संचान नहीं लिया जाता है तो आरोपी तकनीकी आधार पर जमानत का अनुरोध कर सकता है। हालाकि, केंद्रीय एजेंसी ने दलील दी कि आरोप-पत्र पर अदालत के संचान लेने का सवाल ही प्रासंगिक नहीं है। साथ ही कहा कि समय पर मूल आरोप-पत्र और पूरक जमानत दाखिल होने के बाद ‘डिफाल्ट’ जमानत पर विचार नहीं किया जा सकता है।

ईडी ने 29 दिसंबर, 2021 को देशमुख और उनके बेटों के खिलाफ 7,000 पन्नों का पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया था। इससे पहले ईडी ने देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे सहित 14 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने अप्रैल 2021 में राकांपा के वरिष्ठ नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया, जिसके बाद ईडी ने देशमुख के खिलाफ एक अलग जांच शुरू की।

स्वास्थ्य अधिकारी को चार बार तलब करने के बाद भी उन्होंने न तो कोई जवाब दिया न ही खुद हाजिर हुए। सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान अधिकारी के इस रुख पर नाराजगी जाहिर की और पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

आयोग ने एक अन्य मामले में कोटा जिले में देवली माईी सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के चिकित्सा अधिकारी पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोटा के एक नागरिक ने चिकित्सा अधिकारी से उस क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे निजी चिकित्सकों के बारे में प्रैक्टिस मांगी थी। एक और मामले में, आयोग ने श्रीगंगानगर जिले में रायसिंहनगर के विकास अधिकारी पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

‘भाकियू का किसी दल या गठबंधन को समर्थन नहीं’

मेरठ, 18 जनवरी (भाषा)।

समाजवादी पार्टी-राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन को रविवार को समर्थन का एलान करने वाले भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के सुर अब बदल गए हैं और उन्होंने अपने पूर्व के बयान से पलटते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में किसी दल या गठबंधन का यूनियन समर्थन नहीं करेगी। मंगलवार को फोन पर बातचीत में टिकैत ने कहा, ‘भाकियू अराजनीतिक संगठन है और ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ का हिस्सा है। भाकियू विधानसभा चुनाव से अलग है और किसी दल या गठबंधन का समर्थन नहीं करेगी।’

बुढ़ाना विधानसभा सीट से टिकट मिलने की घोषणा होने के बाद रविवार को लोकदल के गठबंधन प्रत्याशी राजपाल बालियान शामली जिले में टिकैत के गांव सिसौली के पहुंचे थे। यहां बैठक के दौरान नरेश टिकैत ने सपा-रालोद गठबंधन को अपना समर्थन देते हुए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की थी। लंबे समय तक चले किसान आंदोलन के दौरान भाजपा नेताओं से नाराज चल रहे किसानों व भाकियू नेताओं ने भाजपा नेताओं का सिसौली में ‘प्रवेश बंद’ कर दिया था। जिसके बाद से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पहली बार सिसौली पहुंचे थे। टिकैत ने कहा, ‘चुनाव के दौरान कोई भी उनके गांव सिसौली में आ-जा सकता है। किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं, सभी का स्वागत है।’

सिविल सर्जन ने कोविड की पांच खुराक ली!

पटना, 18 जनवरी (भाषा)।

पटना की सिविल सर्जन विभा कुमारी सिंह के कोविड-19 टीके की पांच खुराक लिए जाने के बारे में पता चलने पर बिहार सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि, सिविल सर्जन डा विभा ने अतिरिक्त खुराक लेने का खंडन करते हुए मामले की जांच में तथ्यों के सामने आने पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही उनके मुताबिक उन्होंने अपने आधार नंबर के माध्यम से कोविशील्ड की दो निर्धारित खुराक और नियम के अनुसार एक ‘एहतियाती’ खुराक ली है।

उन्होंने कहा कि आधार नंबर के अलावा किसी भी अन्य पहचान-पत्र का प्रयोग उनके स्तर से नहीं किया गया है। साथ ही कहा, ‘मेरे अन्य पहचान-पत्र का दुरुपयोग जिस स्तर से भी हुआ है, उसकी पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए।

किसी और ने पैन कार्ड के विवरण का उपयोग करके टीका लिया था।’ कोविन पोर्टल के अनुसार, उन्होंने 28 जनवरी, 2021 को टीके की पहली खुराक ली और 12 मार्च, 2021 को दूसरी खुराक के लिए पंजीकरण कराया। मार्च, 2021 तक उनका टीकाकरण पूर्ण हो चुका था।

सरकारी रिकार्ड के मुताबिक, उन्होंने पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हुए दो और तारीखों में तीसरी और चौथी बार खुराक ली। 13 जनवरी, 2022 को उन्हें पांचवीं बार ‘एहतियाती’ खुराक मिली। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा, प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div></div>
<div> <div><div>McLEOD RUSSEL</div><div><i>Believe in less</i></div></div> <div> <div><div>McLEOD RUSSEL INDIA LIMITED</div></div> <div>Corporate Identity Number (CIN) : L51109WB1998PLC087076</div> <div>Regd. Office: Four Mangoe Lane, Surendra Mohan Ghosh Sarani, Kolkata- 700 001</div> <div>Telephone : 033-2210-1221, 2248-9434/35, Fax : 91-33-2248-8114/6265/3683</div> <div>E-mail: administrator@mcleodrusssel.com, Website: www.mcleodrusssel.com</div> </div> </div>
<div> <div><div>PRESS RELEASE / PUBLIC NOTICE</div></div> <div>UNDER SECTION 9 OF THE INCOME TAX ACT 1961 READ WITH RULE 11 UE (2) (I) OF THE INCOME TAX RULES 1962</div> <div>This is to inform any and all concerned that:</div> <div>(a) An order had been passed against McLeod Russel India Limited (“Company”) by the Assistant Director of Income Tax (International Taxation) – 2 (1), Kolkata dated 15 May 2009 with respect to assessment year 2006 – 2007, under Section 201 (1) read with Section 201 (1A) of the Income Tax Act 1961 (“IT Act”) pursuant to which a demand of INR 52,78,51,942 (Indian Rupees Fifty Two Crores Seventy Eight Lakhs Fifty One Thousand Nine Hundred and Forty Two) was raised upon the Company.</div> <div>(b) With respect to the aforesaid, the Company had filed an appeal under Section 246A of the IT Act before the Commissioner of Income Tax (Appeals) – VI, Kolkata in Form 35 on 12 June 2009 against the order dated 15 May 2009. The appeal, originally bearing appeal number 15 / 09 – 10 / CIT (A) – VI / DDIT (IT) – 2 (1) / KOL has since been renumbered as appeal number 26 / CIT (A) – 22 / KOL / 14 – 15 or CIT (A), Kolkata – 22/10078/2009 – 10.</div> <div>(c) The Company had also filed a writ petition before the Hon'ble Calcutta High Court, bearing WPO No 441 of 2012 with respect to the retrospective amendments that were made to the provisions of the IT Act, which was connected to the order dated 15 May 2009 referred to hereinabove.</div> <div>(d) Pursuant to the amendments made to Section 9 of the IT Act and Section 119 of the Finance Act 2012 under the Taxation Laws (Amendment) Act 2021 and the notification of the Income – tax (31st Amendment) Rules 2021, the aforesaid proceedings have been withdrawn after appropriate steps were taken before the Commissioner of Income Tax (International Taxation and Transfer Pricing), Kolkata.</div> <div>It is hereby declared by the Company that after the signing of the undertaking in Form No 1 under Appendix IV of the Income Tax Rules 1962, any claims arising out of or relating to the aforesaid order dated 15 May 2009 or any related award, judgment or court order, no longer subsist, and that Mr PradipBhar, Chief Financial Officer of the Company has signed the undertaking on behalf of the Company, and that such undertaking includes an indemnity against any claims brought against the Republic of India or any Indian affiliate (as defined in the IT Rules) contrary to the undertaking, and that the Company shall furnish a copy of this press release to the Republic of India. The Company further confirms that:</div> <div>(a) The Company forever irrevocably forgo any reliance on any right and provisions under any award, judgment, or court order pertaining to the order dated 15 May 2009 or under the order dated 15 May 2009;</div> <div>(b) The Company has provided the undertaking, which includes a complete release of the Republic of India and any Indian affiliates with respect to any award, judgment, or court order pertaining to the order dated 15 May 2009 or under the order dated 15 May 2009, and with respect to any claim pertaining to order dated 15 May 2009;</div> <div>(c) The undertaking also includes an indemnity against any claims brought against the Republic of India, contrary to the release; and</div> <div>(d) The Company confirms it will treat any such award, judgment, or court order as null and void and without legal effect to the same extent as if it had been set aside by a competent court and will not take any action or initiate any proceeding or bring any claim based on that.</div> </div>
<div>Place : Kolkata</div> <div>Date : 18.01.2022</div>

फॉर्म जा	प्रस्ताव योजना के लिए आमंत्रण
(दिलाली तथा दिलालीय (कोपोरैट व्यवसायों के लिए दिलाली प्रस्ताव प्रक्रिया) के विधिवतन, 2016 के विधिवतन 36ए (1) के अंतर्गत)	
संबंधित दिवस	
1. कोपोरैट ब्रह्मचारक का नाम	एफके अंतिमोपनि इंटरट्रीम लिमिटेड
2. कोपोरैट ब्रह्मचारक के निगमन की तिथि	04.09.2020
3. एक प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कोपोरैट ब्रह्मचारक निगमित/पंजीकृत है।	कम्पनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली
4. कोपोरैट ब्रह्मचारक का कोपोरैट पहचान संख्या/संयोजित दायित्व पहचान संख्या	U34360UD1-20000PLC1497525
5. कोपोरैट ब्रह्मचारक के पंजीकृत कार्यालय एवं पता	इ-मू-10/14, वेस्टर्न एरून, बैंकिंग पार्क, नई दिल्ली-110002
6. कोपोरैट ब्रह्मचारक के सदस्यों में दिलाला शामिल होने की तिथि	12.10.2021
7. अधिवि की अधिविनि के आमंत्रण की तिथि	19.01.2022
8. संहिता की पारा 25(2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों को पत्रा उपलब्ध है:	https://insolvencyandbankruptcy.in/cirp/emkay-automobile-industries-limited/
9. पारा 2ए के अंतर्गत लागू होने वाले उद्योगिक का कर्मा उपलब्ध है।	https://insolvencyandbankruptcy.in/cirp/emkay-automobile-industries-limited/
10. अधिवि की अधिविनि प्रावि की अंतिम तिथि	03.02.2022
11. संहितित प्रस्ताव आवेदकों की अर्थाई सूची जारी होने की तिथि	13.02.2022
12. अर्थाई सूची के प्रति अधिवि जमा करने की अंतिम तिथि	18.02.2022
13. संहितित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि	28.02.2022
14. संहितित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिए सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मेमोरैस तथा अंशगु जारी होने की तिथि	18.02.2022
15. प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मेमोरैस, सूचना मेमोरैस तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	अंशगु के लिए ई-मेल emkay@saainsolvency.com पर भेजी जाएगी तथा बीडीआर एक्सेस उपलब्ध कराई जाएगी।
16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि	18.03.2022
17. प्रस्तावकमी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका	पारदर्श संहितित सहित emkay@saainsolvency.com पर भेजी जाए तथा मुरदर्ब हार्ड कॉपी कॉमिन नं. 21 में जॉति पो पर जमा की जाएगी।
18. वीकीकृत के लिए निर्धारक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमति तिथि	30.03.2022
19. प्रस्ताव कमी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	नाम: जी हेमन्त सेटी, पं.नं. 1, IBBI/IPA-002/IP-N01107/2021-2022/13628
20. बीईई में क्या पंजीकृत प्रस्ताव कमी का नाम, पता तथा ई-मेल	नाम: जी हेमन्त सेटी, पं.नं. 1, IB, मकान नं. 8-मी, अण्णक निगर, फेज-1, सेंटर कॉमिन्स के समने, उत्तर पंचनम, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली-110052 ई-मेल: hemantm1sethi60@gmail.com
21. प्रस्ताव कमी के साथ पहचान के लिए प्रयोग करने के लिए पता तथा ईमेल	पारा ई-पार, केलस कॉलेनी, नई दिल्ली, दिल्ली-110048 ई-मेल: emkay@saainsolvency.com
22. वित्तीय विवरण उपलब्ध है	https://insolvencyandbankruptcy.in/cirp/emkay-automobile-industries-limited/
23. फॉर्म जा के प्रकाशन की तिथि	19.01.2022

हेमन्त सेटी प्रस्ताव संदी

IBBI/IPA-002/IP-N01107/2021-2022/13628

1ए, केलस कॉलेनी, नई दिल्ली, दिल्ली-110048

एफके अंतिमोपनि इंटरट्रीम लिमिटेड के लिए

MERCURY METALS LIMITED CIN: L27109GJ1986PLC008770 Regd. Office: 36, Advani Market, O/S Delhi Municipal Market, Ahmedabad. Tel. No.: +91-9328504142 E-mail: metal_mercury@gmail.com Website: www.mercurymetals.in	
Recommendations of the Committee of Independent Directors (“ IDC ”) of Mercury Metals Limited (“ Target Company ”) in relation to the open offer (“ Offer ”) made by Mr. Kavil Jayeshbhai Thakkar (“ Acquirer ”), and Mrs. Aruben Jayeshbhai Thakkar (“ Acquirer 2 ”) (hereinafter referred to as “ Acquirers ”) to the Public shareholders of the Target Company (“ Shareholders ”) under Regulations 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and Subsequent Amendments thereto (“ SEBI (SAST) Regulations, 2011 ”).	
1. Date	18th January 2022
2. Target Company (“ TC ”)	Mercury Metals Limited
3. Details of the Offer pertaining to Target Company	The offer is being made by acquirers pursuant to Regulation 3(1) and Regulation 4 of SEBI (SAST) Regulations, 2011 for acquisition upon 18,07,730 (Eighteen Lakh Seven Thousand Seven Hundred Thirty) Equity Shares of face value of Rs.1/- each representing 26.00% of the Equity Share Capital/ voting Capital of the Target Company at a price of Rs. 1.75/- (One Rupee and Seventy Five Paise) (“ Offer Price ”), payable in Cash.
4. Name of the Acquirers	Acquirer 1 Kavil Jayeshbhai Thakkar Acquirer 2 Aruben Jayeshbhai Thakkar
5. Name of the Manager to the offer	Kunvarji Finstock Private Limited
6. Members of the Committee of Independent Directors (IDC)	1. Mahendra G. Prajapati, Chairman 2. Tagaram L. Chowdhary, Member 3. Bharat Nimesh Bavishi, Member
7. IDC Member’s relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any	IDC Members are Independent Directors on the Board of the Target Company. They do not have any equity holding in the Target Company. None of them has entered into any other contract or has other relationship with the Target Company.
8. Trading in the Equity shares/ other securities of the TC by IDC Members	No trading in the equity shares of the Target Company has been done by any of the IDC Members
9. IDC Member’s relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any.	None of the IDC Members holds any contracts, nor have any relationship with the acquirers in their personal capacities.
10. Trading in the Equity shares/ other securities of the acquirer by IDC Members	No trading in the equity shares/other securities of the acquirers. by IDC Members
11. Recommendation on the Offer, as to whether the offer, is or is not, fair and reasonable	Based on the review, IDC Members believe that the offer is fair and reasonable and in line with the Regulations.
12. Summary of reasons for recommendation	IDC has taken into consideration the following for making the recommendation: IDC has reviewed a) The Public Announcement (“ PA ”) dated 13th October 2021; b) The Detailed Public Statement (“ DPS ”) which was published on 20th October 2021 c) The Draft Letter of Offer (“ DLOF ”) dated 26th October 2021; and d) The Letter of Offer (“ LOF ”) dated 11th January 2022; Based on review of PA, DPS, DLOF and LOF, the IDC Members are of the view that the Offer price is in line with the parameters prescribed by SEBI in the Regulations. The equity shares of the Target Company are listed and traded on bourses of BSE & are non-frequently traded with in which the meaning of definition of “Frequently traded shares” under clause (j) of sub-regulation (1) of Regulation 2 of the SEBI (SAST) Regulations on BSE. The offer price of Rs. 1.75/- (One Rupee And Seventy Five Paise) is justified, in terms of Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011, being the highest of the following: Sr. No. Particulars Price (in Rs. per equity share) 1. Negotiated Price. i.e. The highest negotiated price per equity share of the Target Company for acquisition under any agreement attracting the obligation to make a PA of an open offer. 1.75/- 2. The volume-weighted average price paid or payable for acquisition by the Acquirers during 52 weeks immediately preceding the date of PA. Not Applicable 3. The highest price paid or payable for any acquisition by the acquirers during 26 weeks immediately preceding the date of PA. Not Applicable 4. The volume-weighted average market price of such equity shares for a period of sixty trading days immediately preceding the date of PA as traded on BSE, provided such shares are frequently traded. Not Applicable 5. The per equity share value computed under Regulation 8(5) of the Takeover Regulations, if applicable. Not Applicable 6. Where the shares are not frequently traded, price determined by the acquirers & the Manager to the Offer taking into account valuation parameters including book value, comparable trading multiples and earnings per share. 1.71/- (*Ascertified by CS. Shreyansh M Jain, Registered Valuer (RV Registration No. IBBV/RV/032019/12124) having office at 83/110, Opp. Shyam Mandir, New City Light, Surat- 395017, Tel. No.: +91 9555219019; Email: rvshtreyanshmian@gmail.com has valued the equity shares of Target Company and calculated the fair value per share at Rs. 1.71/- (One Rupee and Seventy One Paise Only) vide his Share Valuation Report dated 6th September, 2021). In view of the parameters considered and presented in the table above, in the opinion of the acquires and manager to the offer, the offer price is Rs. 1.75/- in terms of Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
13. Details of Independent Advisors, if any.	None
14. Any other matter to be highlighted	None
To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the Regulations.	
For and on behalf of the Committee of Mercury Metals Limited Mahendra G. Prajapati (Director) DIN: 03270133	
Date: 18.01.2022 Place: Ahmedabad	